राग - यमन
थाट - कल्याण
वादी - ग
संवादी - नि
जाति - सम्पूर्ण
गायन समय -

आरोह - नि़ रे ग म॑ प ध नि सां
अवरोह - सां नि ध प म॑ ग रे सा
पकड़ - सा, नि़ रे ग, रे ग रे म॑ ग, रे, नि़ रे

Scanned with CamScanner

आलाप - सा -- सा नि़ ध़ नि़ -- ध़ सा --
सा नि़ ध़ नि़ -- नि़ रे -- सा -- । नि़ रे ग --
नि़ रे नि़ ग -- रे ग -- रे -- नि़ रे -- सा -- ।
नि़ रे ग -- मे ग -- रे ग -- रे, ग, मे, प --
प (पध पम प) रे ग -- ग, रे -- नि़ रे सा ।
ग -- मे ग -- प -- ग मं प मे ग --
प -- प मे ध प -- मे ध -- नि़ ध प --
मे ध प मं प -- प मं, प रे ग -- रे ग मं प रे
ग रे --- नि़ रे -- सा -- ।
ग मं ग प -- प मे ग मं -- ध प --
मे ध नि -- मे नि -- ध नि़ -- नि ध --
नि प, मे ध नि ध, ध नि ध सां -- सां --
नि रें सां -- सां नि ध नि -- ध -- प --
मे ध नि ध प -- मे ध प, प रे ग --
ग रे -- नि़ रे सा -- ।
सा सा सा सा, नि़ नि़ रे, सा -- --

छोटा खयाल

स्थायी

भज मन करुणा निधान
सुख सम्पत एक धाम
शरणागत वत्सल प्रभु
पूरत सब मन सुकाम

अन्तरा

मंगल सुख दायक प्रभु
अखिल जगत नायक विभु
अन्तरयामी अविकल
निर्गुण कर चतुर धाम

Scanned with CamScanner

स्थाई

x	0	२	0	३	४
नि ध	पं मे	ग मे	प –	मे ग	– ग
भ ज	म न	क रु	णा ऽ	नि धा	ऽ न
ग रे	ग मे	प प	रे ग	रे नि	रे सा
सु ख	स म	प द	स ऽ	क धा	ऽ म
सा सा	रे –	ग ग	मे –	प प	ध प
श र	णा ऽ	ग त	व ऽ	त्स ल	प्र भु
प –	ध ध	नि नि	सां सां	निध नि	ध प
पू ऽ	र त	स ब	म न	सुऽ का	ऽ म

अन्तरा

प ग	प प	ध प	सां –	सां सां	रें सां
मं ऽ	ग ल	सु ख	दा ऽ	य क	प्र भु
सां सां	रें रें	गं रें	सां –	निध नि	ध प
अ खि	ल ज	ग त	ना ऽ	यऽ क	वि भु
प –	मे मे	ग –	प रे	ग रे	सा सा
अं ऽ	त र	या ऽ	मी ऽ	अ नि	च ल
सां सां	रें रें	गं रें	सां सां	नीध नी	ध प
नि र	गु ण	क र	च तु	रऽ धा	ऽ न
x	0	२	0	३	४

×	०	२	०	३	४
सां सां	रें रें	गं रें	सां सां	निधनि	धप
नि र	गु ण	क र	च तु	र ध्या	ऽ न

स्थाई दुगुन – भज मन ... (पूरत सब मन सुकाम)

अन्तरा दुगुन – मंगल ... (निरगुण कर चतुर ध्यान)

स्थाई-अन्तरा – भज मन ... (निरगुण कर चतुर ध्यान)

Scanned with CamScan

स्वर - विस्तार

स्थाई

१. गं - - रे ग म रे ग रे - सा -

२. ग - रे ग मं प रे - - सा - -

३. प - मे प - रे ग रे नि़ रे सा -

४. प नि़ - रे ग मं ग मे धं - प -

अन्तरा

१. सां - - - - - नि ध नि ध सां -

२. सां - - - - - नि रें गं - रें सां

३. सां - - - नि ध नि ध मे ध प -

४. प मे ग मं ध - नि ध नि रें सां -

Scanned with CamScanner